



**VIKALP  
SECURITIES LIMITED**

To,  
The Listing Department  
Bombay Stock Exchange, Mumbai  
Phirozejeejeebhoy Towers  
Dalal Street,  
Mumbai-400001

Date:24.05.2022

Scrip Code:531334

Sub:COPIES OF BOARD MEETING NOTICE PUBLISHED IN NEWSPAPERS

Dear Sir,

Pursuant to regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, we are attaching herewith scanned copies of the below mentioned newspapers in which we have published Notice of the Company's Board Meeting for considering Audited Financial Results for the quarter and year ended on 31.03.2022 and Annual Accounts for the aforesaid year of our Company :-

NAME OF NEWSPAPERS	DATED	LANGUAGE	EDITION
Financial Express	24 <sup>th</sup> May, 2022	English	Lucknow
Jansatta	24 <sup>th</sup> May, 2022	Hindi	Lucknow

Please take the aforesaid on records.

Thanking You,  
For Vikalp Securities Limited

ArunKejriwal  
Managing Director  
DIN : 00687890

**Public Notice**  
 It is brought to the notice of the public at large that the Company "Komal Mercantiles Private Limited" having its registered office at Satya Sadan, 135, Pocket-10, Sector-24, Rohini Delhi - 110065 owns an agricultural land at Baghori/Paini. Since, it is the only asset/undertaking of the company, shareholders' interest (being ultimate owners of the company) need to be protected in accordance with the Law while disposing off the said asset/undertaking in near future.  
 Hence, the public at large is made aware that consent of the shareholders may be obtained before dealing of any kind in that said asset/undertaking with the company or its directors and that the meeting of the Board of Directors of Komal Mercantiles Private Limited will be held on 30th May, 2022 at 2:00 P.M. at the registered office of the Company at C-24, Defence Colony, New Delhi-110024 to consider and approve the Audited Financial Results (Standalone) along with Audit Report for the Quarter and Financial Year ended on 31st March, 2022 and matters connected therewith. Further, pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation 2015 and SEBI letter Ref. No. LIST/COMP/01/2019-20 dated April 02, 2019 the Trading window for trading in the securities of the Company is closed from 01.04.2022 till 48 hours from the conclusion of the Scheduled Board.  
**Satish Chand Gupta** (Shareholder)  
 Date: 15.03.2022 **Komal Mercantiles Pvt Ltd.**

**INTEGRATED TECHNOLOGIES LIMITED**  
 Regd. Off.: C-24, Defence Colony, New Delhi-110024, India  
 Tel: +91-11-41552579  
 Email: info@integratedtech.in  
 Website: www.integratedtech.in  
 CIN: L31909DL1995SLC277176  
**Intimation of Board Meeting & Closure of Trading Window**  
 Pursuant to the Regulation 29 and other applicable regulations of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Board of Directors of Integrated Technologies Limited will be held on 30th May, 2022 at 2:00 P.M. at the registered office of the Company at C-24, Defence Colony, New Delhi-110024 to consider and approve the Audited Financial Results (Standalone) along with Audit Report for the Quarter and Financial Year ended on 31st March, 2022 and matters connected therewith. Further, pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation 2015 and SEBI letter Ref. No. LIST/COMP/01/2019-20 dated April 02, 2019 the Trading window for trading in the securities of the Company is closed from 01.04.2022 till 48 hours from the conclusion of the Scheduled Board.  
**Sneh Chauhan** (Company Secretary & Compliance Officer)  
 Date: 15.03.2022

**Form No. INC-26**  
 [Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]  
**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT, MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, NEW DELHI**  
 In the matter of: the Companies Act, 2013, Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 30(5)(a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014  
**AND**  
 In the matter of: Prozia Management Consulting Private Limited (CIN-U93000DL2013PTC257572) having its registered office at B-26/2B, 3rd Floor, Block-B, Mandawali, Fazalpur, New Delhi-110092  
**.....Petitioner**  
 Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 24th March, 2022 to enable the company to change its Registered office from "State of Delhi" to "State of Uttar Pradesh".  
 Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal ([www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in)) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post with his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003 within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned above.  
**For and on behalf of the Applicant**  
**Sd/-**  
**Neeraj Gupta** (Director)  
 (DIN: 07688948)  
 Date: 23-05-2022  
 Place: New Delhi

**AVON MERCANTILE LTD**  
 CIN: L17180UP1985PLC026582  
 Regd. Off.: Upper Basement, Smart Bharat Mall, Plot No. I-2, Sector-25A, Gautam Buddha Nagar, Noida, Uttar Pradesh-201301  
 Website: <http://www.avonmercantile.co.in/>  
**NOTICE**  
 With reference Regulation 47(1) (a) read with Regulation 29 of Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Monday, the 30th May, 2022 at 4:30 P.M.** at Conference Room, Upper Basement, Smart Bharat Mall, Plot No. I-2, Sector-25A, Gautam Buddha Nagar, Noida, Uttar Pradesh-201301 to consider and take on record the audited financial results for the quarter and year ended on 31st March, 2022, pursuant to the Regulation 33 of the LODR Regulations.  
 The audited results of the Company, once approved by the Board, shall be available on the website of the Company viz. <http://www.avonmercantile.co.in/> and on the website of the stock exchanges viz. <https://www.bseindia.com/> and <https://www.cse-india.com/>.  
 The information in the above notice is also available on the website of the Company [www.avonmercantile.co.in](http://www.avonmercantile.co.in/).  
**Disha Soni** (Company Secretary & Compliance Officer)  
 Date: 23.05.2022  
 Place: Noida  
 M. No.: A42844

**SUPREME COMMERCIAL ENTERPRISES LIMITED**  
 Regd. Off.: Y-4-A-C, Loha Mandi, Naraina, New Delhi-110028  
 Ph.: 9350150766  
 Email Id: [supremecommercial@gmail.com](mailto:supremecommercial@gmail.com)  
 CIN: L51909DL1983PLC016724  
**Notice**  
 Notice is hereby given pursuant to Regulation 29(1) read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Monday, 30th May 2022 at Y-4-A-C, Loha Mandi, Naraina, New Delhi-110028 at 04:00 P.M.** to consider and approve Audited Standalone and Consolidated Financial Result of the Company for the quarter and year ended 31st March, 2022.  
 Further in pursuance of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, Trading Window for dealing in securities of the Company is closed from 01st April, 2022 and will remain closed up to 48 hours of the conclusion of the Board Meeting in which Standalone and Consolidated Financial Result of the Company for the quarter and year ended 31st March, 2022 are to be considered and approved.  
 The information in the above notice is also available on the website of the Company [www.supremecommercial.co.in](http://www.supremecommercial.co.in).  
**By the Order of the Board For Supreme Commercial Enterprises Limited**  
**Sd/-**  
**(Ishika Garg)** (Company Secretary)  
 Date: 23.05.2022  
 Place: Delhi

**Form No. INC-26**  
 [Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]  
**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT, MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, NEW DELHI**  
 In the matter of: the Companies Act, 2013, Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 30(5)(a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014  
**AND**  
 In the matter of: Usha Breco Education Infrastructure Limited having its Registered Office at 701, Surya Kiran Building, 19, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi 110001  
**.....Petitioner**  
 Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extraordinary General Meeting held on 04th May, 2022 to enable the Company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to "State of Uttar Pradesh".  
 Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal ([www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in)) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post with his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address mentioned above.  
**Regd. Office:** 701, Surya Kiran Building, 19, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001.  
**Corporate Officer:** Parvath Maheshwari, Third Floor, 15A, Vaidhath Khand, Indraprastha, Ghaziabad (UP)-201012  
**For and on behalf of Usha Breco Education Infrastructure Limited**  
**Sd/-**  
**Apurv Jhavar** (Director)  
 Date: 23.05.2022  
 Place: New Delhi  
 DIN: 02799918

**Kotak Mahindra Bank Limited**  
 Registered Office: 27BKC, C-27, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051  
 Branch Office: Madhya Marg 2nd Floor, SCO 153-154-155 Sector-9C, Chandigarh-160009.  
**POSSESSION NOTICE**  
 Whereas, The Undersigned Being the Authorized Officer Of Kotak Mahindra Bank Ltd., Under The Securitisation And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 (SRA Act 2002) And In Exercise Of Powers Conferred Under Section 13(12) Read With Rule 3 Of The Security Interest (Enforcement) Rules 2002 Issued Demand Notices To The Borrowers As Detailed Hereunder, Calling Upon The Respective Borrowers To Repay The Amount Mentioned In The Said Notices Within 60 Days, Charges And Expenses Till Actual Date Of Payment Within 60 Days From The Date Of Receipt Of The Same. The Said Borrower(s) Co-Borrower(s) Having Failed To Reply The Amount, Notice is hereby given To The Borrowers/ Co-Borrowers And The Public In General That The Undersigned Has Taken Possession Of The Property Described Hereunder In Exercise Of Powers Conferred On Him Under Section 13(4) Of The SRA Act R/W Rule 8 Of The Said Rules On The Dates Mentioned Along-With. The Borrowers In Particular And Public In General Are Hereby Cautioned Not To Deal With The Properties And Any Dealings With The Properties Will Be Subject To The Charge Of Kotak Mahindra Bank Ltd. For The Amount Specified Therein With Future Interest, Costs And Charges From The Respective Dates. The Borrowers Attention is Invited To Provisions Of Sub Section (b) Of Section 13 Of The Act, In Respect Of Time Available To Redeem The Secured Assets. Details Of The Borrowers, Scheduled Property, Outstanding Dues, Demand Notices Sent Under Section 13(2) And Amounts Claimed There Under, Date Of Possession Is Given Herein Below:  
**Name And Address Of The Borrower, Co-Borrower Loan Account No., Loan Amount Details Of The Immovable Property 1. Date Of Possession 2. Type Of Possession 3. Demand Notice Date 4. Amount Due In Rs.**  
**Mr. Kamlesh Biswas S/O Mr. Kall Pado Biswas & Mrs. Deepdy Kamlesh Biswas W/O Mr. Kamlesh Biswas Both At: 414, Roop Nagar, C-7, Jagadhai-135-003, Jagadhri, Within The Municipal Limits Of Jagadhri Tehsil Jagadhri, District Yamuna Nagar. Name Of The Mortgagee: Mr. Kamlesh Biswas S/O Mr. Kall Pado Biswas**  
 1. 20.05.2022  
 2. Physical Possession  
 3. 27.02.2024  
 4. Rs. 10,82,295/- (Rupees Ten Laks Eighty Two Thousand Two Hundred And Ninety Five Only) due and payable as of 27.02.2024 with applicable interest @ 14% per annum from 28.02.2014 until payment in full.  
 Date: 20.05.2022, Place: Yamunanagar  
**For Kotak Mahindra Bank Ltd., Authorized Officer**  
**For any query please Contact Mr. Ravinder Godara (+91 9943999714) & Mr. Neeraj Kumar (+919911599467)**

**VIKALP SECURITIES LIMITED**  
 Regd. Office: 25/38, KARACHI KHANA, KANPUR, UTTAR PRADESH-208001  
 CIN-L65993UP1986PLC007727, Contact No: 0512-2372665  
 Email id : [vikalpsecuritieslimited@gmail.com](mailto:vikalpsecuritieslimited@gmail.com)  
 Website: [www.vikalpsecurities.com](http://www.vikalpsecurities.com)  
**NOTICE**  
 NOTICE is hereby given that pursuant to the Regulation 47(1)(a) read with Regulation 33 and Regulation 29 of SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015, a meeting of Board of Directors of Vikalp Securities Limited will be held on Monday, 30th May, 2022 at 01:30 P.M. at the Registered Office of the Company at 25/38, Karachi Khana, Kanpur, Uttar Pradesh - 208001, inter alia, to consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the quarter ended and year ended on 31st of March, 2022. The said information is also available on the website of the Company [www.vikalpsecurities.com](http://www.vikalpsecurities.com) and on the website of Bombay Stock Exchange Limited [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).  
**For Vikalp Securities Limited**  
**Sd/-**  
**Arun Kejriwal** (Managing Director)  
 DIN : 00687890  
 Date : 23rd May, 2022  
 Place : Kanpur

**MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED**  
 Regd. Off.: Plot no. 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi-110070, India  
 Ph.: +91 (11) 46781000; Fax: +91 (11) 46150275 / 46150276  
 Web: [www.marutisuzuki.com](http://www.marutisuzuki.com), Email Id: [investor@maruti.co.in](mailto:investor@maruti.co.in)  
**GENERAL NOTICE**  
 Notice is hereby given pursuant to Section 201 Clause (b) of sub-section (2) of the Companies Act, 2013 ("Act") to the members of the Company that the Company intends to make an application to the Central Government for its approval under Section 196, Schedule V and other applicable provisions, if any, of the Act for the appointment of Mr. Hisashi Takeuchi as Managing Director & Chief Executive Officer with effect from 01st April, 2022 for a period of three years at a remuneration and terms and conditions as approved by the Shareholders via resolution passed through postal ballot dated 14th May, 2022.  
**For Maruti Suzuki India Limited**  
**Sanjeev Grover** (Executive Vice President & Company Secretary)  
 F3788  
 Place: New Delhi  
 Date: 23.05.2022

**AXIS BANK** Retail Lending and Payment Group (Local Office/Branch):  
 Axis House, Tower-2, 2nd Floor, I-14, Sector-12B, Noida Expressway, Jaypee Greens Wishtown, Noida-201301, U.P.  
 Axis Bank Ltd., 3rd Floor, Gigaplex, NPC - 1, TTC Industrial Area, Mugalsan Road, Arrol, Navi Mumbai - 400 708 Registered Office: "Trishul", 3rd Floor Opp. Samarsheshwar Temple Law Garden, Ellisbridge/Ahmedabad-380005.  
**E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY**  
**E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002.**  
 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property is mortgaged/charged to the secured creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of Secured Creditor will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" on 08/06/2022 for recovery of Rs. 2,06,19,000/- (Rupees Two Crore Six Lakh Nineteen Thousand Only) dues as on 30.11.2021 with future interest and costs due to the secured creditor from 1. M/S GLEAM FABMAT LIMITED, 2. Mrs. Pushpa Gupta 3. Mr. Amit Gupta, 4. Mr. Anil Kumar Gupta, & 5. Mr. Anur Gupta in Loan Nos. 918030105201266. Please refer the appended auction schedule for necessary details:-  
**KNOWN ENCUMBRANCES (IF ANY)** Not Known  
**RESERVE PRICE (IN RS.)** Rs. 1,20,00,000/- (Rs. One Crore Twenty Lakh Only)  
**EARNEST MONEY DEPOSIT (IN RS.)** Rs. 12,00,000/- (Rs. Twelve Lakh Only) payable at DD/PO in favor of 'Axis bank Ltd.' through a Delhi.  
**BID INCREMENTAL AMOUNT** Rs. 10,000/- (Rs. Ten Thousand only)  
**LAST DATE, TIME AND VENUE FOR SUBMISSION OF BIDS / TENDER WITH EMD** Till 7th June, 2022 latest by 05:00 P.M. Axis House, Tower-2, 2nd Floor, I-14, Sector-12B, Noida Expressway, Jaypee Greens Wishtown, Noida-201301, U.P. addressed to Mr. Anuj Gupta  
**DATE, TIME, AND VENUE FOR PUBLIC E-AUCTION** On 08th June, 2022, between 11:00 A.M and 12:00 Noon, with unlimited extensions of 5 minutes each at web portal <https://www.bankauctions.com>  
**SCHEDULE - DESCRIPTION OF PROPERTY**  
 Equitable Mortgage of Commercial One Shop located at Ground Floor facing Eastern Side in Property bearing No. 5434, 5503 to 5505 constructed on Part of Plot No. 15 South, Ward No-XIV, situated at East Harpohol Singh Sadar Thana Road, Delhi - 110006 along with the right of the land measuring about: 28.31 Sq Yards owned Smt Pushpa Gupta W/o Sh. Anil Kumar Gupta, East - Footpath & Road, West - Other Property, North - Common Wall & Other Shop, South - Common Wall & Other Shop  
**For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in the secured creditor's website i.e. <https://www.axisbank.com/auction-retail> and the Bank's approved service provider M/S C1 India Private Limited at their web portal <https://www.bankauctions.com>**  
 The auction will be conducted online through the Bank's approved service provider M/s. C1 India Private Limited at their web portal <https://www.bankauctions.com>.  
 For any other assistance, the intending bidders may contact Mr. Anuj Gupta, Mobile No. +91-9911826240 Authorized officer of the Bank during office hours from 9:30 a.m. to 4:00 p.m.  
 Date: 24.05.22, Place: Delhi  
**Sd/- Authorized Officer, Axis Bank Ltd.**

**Form No. INC-26**  
 [Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]  
**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT, MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, NEW DELHI**  
 In the matter of: the Companies Act, 2013, Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 30(5)(a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014  
**AND**  
 In the matter of: Prozia Management Consulting Private Limited (CIN-U93000DL2013PTC257572) having its registered office at B-26/2B, 3rd Floor, Block-B, Mandawali, Fazalpur, New Delhi-110092  
**.....Petitioner**  
 Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 24th March, 2022 to enable the company to change its Registered office from "State of Delhi" to "State of Uttar Pradesh".  
 Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal ([www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in)) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post with his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003 within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned above.  
**For and on behalf of the Applicant**  
**Sd/-**  
**Neeraj Gupta** (Director)  
 (DIN: 07688948)  
 Date: 23-05-2022  
 Place: New Delhi

**SRG HOUSING FINANCE LIMITED**  
 R.O.: 321, S. M. Lodha Complex, Udaipur 313001 Ph: 0294-2561882  
 Email Id: info@srghousing.com, CIN No: L65922RJ1999PL015440, Website: [www.srghousing.com](http://www.srghousing.com)  
**STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH, 2022 (Rs. In Lakhs)**

PARTICULARS	Quarter ended		Year ended	
	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2021	31.03.2021
	Audited	Audited	Audited	Audited
Total income from operations	2237.47	8045.58	2045.52	7666.86
Net Profit for the period before Tax (before and after Exceptional and/or Extraordinary item#)	725.35	2,552.98	461.58	2,377.44
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	576.12	2,032.19	362.75	1883.39
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	571.54	2,012.70	358.23	1874.90
Equity Share Capital	1300	1300	1300	1300
Earnings Per Share (of Rs.10/- each) Basic & Diluted	4.43	15.63	2.79	14.49
Outstanding Redeemable Preference Shares	0	0	0	0
Debt Redemption Reserve	0	0	0	0
Net Worth	11,393.67	11,373.97	9,381.07	9,381.07
Paid Up Debt Capital/Outstanding Debt	28,663.38	28,663.38	28,577.52	28,577.52
Debt Equity Ratio	2.52	2.52	3.05	3.05
Capital Redemption Reserve	0	0	0	0
Interest Service Coverage Ratio	1.99	1.84	1.57	1.77
Debt Service Coverage Ratio	0.40	0.39	0.44	0.55
Securities Premium Account	1,377.02	1,377.02	1,377.02	1,377.02
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	10,073.36	10,073.96	8,061.07	8,061.07

Notes: a) The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2022 filed with BSE Limited under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2022 are available on the website of BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and Company's website at [www.srghousing.com](http://www.srghousing.com). b) For the items referred in the Regulation 52(4) of the SEBI (Listing and other Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to BSE and can be accessed on the website of BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com). c) As per Companies Act, 2013 and Rule 19(7)(iii) of Companies Share Capital and Debenture Rules, 2014 the Housing Finance Company registered with National Housing Bank are exempted from creating Debt Redemption Reserve in respect of privately placed debentures.  
 Place: Udaipur  
 Date: 23-05-2022  
**For SRG Housing Finance Limited**  
**Sd/-**  
**Vinod K. Jain** (Managing Director) DIN: 00248843

**Punjab & Sind Bank** पंजाब एण्ड सिंध बैंक  
 A Govt. of India Undertaking  
**POSSESSION NOTICE**  
 भारत सरकार का उपक्रम  
**ZONAL OFFICE: First Floor, Satguru Tower, CP47A, Sector-E, Jankipuram, Lucknow**  
 Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Punjab & Sind Bank under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with the Rule 3 of the Security Interest [Enforcement] Rules, 2002 issued Demand Notice calling upon the borrowers detailed below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice.  
 The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers, Guarantors and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on the date as mentioned below.  
 The borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the mentioned properties and any dealings with the mentioned properties will be subject to the charge of the Punjab & Sind Bank for the amount/liability and interest thereon due from the borrowers as mentioned below. The borrower's attention is invited to the provisions of sub-section (8) of section 13 of the act in respect of time available to redeem the secured asset.  

Sl. No.	Name of Borrowers & Guarantors	Amount Claimed in Notice	Description of the Immovable Property	Date of Demand Notice / Date of Symbolic Possession
<b>BRANCH: Gumti No. 5, Kanpur</b>				
1	Borrower: Smt. Kanwaljeet Kaur (Prop. Gobind Sales) W/o Sh. S. Gurdev Singh, Residence cum Office at House No. 111(Old) 200 New, Bengali Colony, Safipur-2, Harjinder Nagar, Kanpur-208007. Co-Borrower/Guarantor: Sh. S. Gurdev Singh S/o Harbhajan Singh Residence cum Office at House No. 111(Old) 200 New, Bengali Colony, Safipur-2, Harjinder Nagar, Kanpur-208007.	₹ 70,85,121.06 as on 30.09.2021 + Interest & other expenses w.e.f. 01.10.2021	All that part and parcel of the property consisting of Building/Premises situated at House No. 111, Safipur-2, Harjinder Nagar, Kanpur, Area: 143.50 Sq.Mt., Owner: Smt. Kanwaljeet Kaur, Boundaries: East: Govt. Road West: House of R P Singh North: 18 Ft. wide Gali Than House of Daya Shankar South: House No. 201 (Smt. Sunita)	05.10.2021 19.05.2022
2	Borrower: Sh. S. Gurdev Singh S/o Harbhajan (Prop. M/s Gobind Galaxy & Zodiac Enterprises) Residence of House No. 111(Old) 200 New, Bengali Colony, Safipur-2, Harjinder Nagar, Kanpur-208007. Guarantor: Smt. Kanwaljeet Kaur W/o Sh. S. Gurdev Singh, Residence at House No. 111(Old) 200 New, Bengali Colony, Safipur-2, Harjinder Nagar, Kanpur-208007.	₹ 42,69,013.82 as on 30.09.2021 + Interest & other expenses w.e.f. 01.10.2021	All that part and parcel of the property consisting of Building/Premises situated at House No. 111, Safipur-2, Harjinder Nagar, Kanpur, Area: 143.50 Sq.Mt., Owner: Smt. Kanwaljeet Kaur, Boundaries: East: Govt. Road West: House of R P Singh North: 18 Ft. wide Gali Than House of Daya Shankar South: House No. 201 (Smt. Sunita)	01.10.2021 19.05.2022
3	Borrower: Smt. Punam Jain W/o Sh. Naveen Kumar Jain, R/o H.No. 118/338, Kaushalpur, Kanpur. Co-Borrower: Sh. Naveen Kumar Jain S/o Sh. Mahesh Chandra Jain, R/O H.No. 118/338, Kaushalpur, Kanpur.	₹ 26,79,926.20 as on 30.09.2021 + Interest & other expenses w.e.f. 01.10.2021	All that part and parcel of the property consisting of Building/Premises situated at East part of Juj. H. No. 8/149-A, Plot No. 118 (Part), Block-M, Yojna-7 Gutaiya, Arya Nagar, Kanpur-208012. Area: 83.61 Sq.Mt., Owner: Smt. Punam Jain W/o Sh. Naveen Kumar Jain, Boundaries: East: 10 Ft. wide Govt. Gali West: Remaining West Part of 100 Sq. Gaj Part of H. No. 8/149-A, Arya Nagar, Kanpur North: H. No. 8/150 Arya Nagar, Kanpur South: H. No. 8/149 Arya Nagar, Kanpur.	22.10.2021 19.05.2022
4	Borrower: M/s Chandra Prabhu Contractor, Proprietor Sh. Naveen Kumar Jain, Residence cum Office at 111/A/90 Ashok Nagar, Kanpur. Guarantor: Smt. Poonam Jain W/o Sh. Naveen Kumar Jain, resident of 118/338, Kaushal Puri, RK Nagar, Kanpur, Pin-208012.	₹ 31,92,010.00 as on 30.09.2021 + Interest & other expenses w.e.f. 01.10.2021	All that part and parcel of the property consisting of Building/Premises situated at Plot No. 118 part of House No. 8/149-A, Arya Nagar, Kanpur-208012. Area: 83.61 Sq.Mt., Owner: Smt. Punam Jain W/o Sh. Naveen Kumar Jain, Boundaries: East: 10 Ft. (3.50 Mtr.) wide Gali (Govt.) West: Jug Bhag of House No. 8/149 North: Plot No. 8/149-A (Amlita Kumari) South: H. No. 8/148 Arya Nagar, Kanpur.	22.10.2021 19.05.2022

 Date: 24.05.2022, Place: Kanpur  
**Authorized Officer, PUNJAB & SIND BANK**

**Mewat Zinc Limited**  
 CIN-L2720DL1991PLC046120  
 Registered Office: 1/24, Banshi House, Asaf Ali Road, New Delhi 110002  
 Phone No.: 911-23224316, E-Mail: [mewatinc@gmail.com](mailto:mewatinc@gmail.com), Website: [www.mewatinc.com](http://www.mewatinc.com)  
**EXTRACTS OF THE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON 31st MARCH, 2022**  
 (Amounts in Lakhs except per share data)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		31-03-2022 (audited)	31-12-2021 (unaudited)	31-03-2021 (audited)	31-03-2021 (audited)
1	Total income from Operations	36.77	0.00	0.00	83.81
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	-1.10	-2.01	-5.72	2.75
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	-1.10	-2.01	-5.72	2.75
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	-0.85	-1.49	-4.23	2.00
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after Tax))	-0.85	-1.49	-4.23	2.00
6	Equity Share Capital	400.00	400.00	400.00	400.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year				-37.98
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)- Basic: Diluted:	-0.02 -0.02	-0.04 -0.04	-0.11 -0.11	0.05 0.04

Notes:  
 1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly and yearly Results submitted with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and yearly Results is also available on the website of Stock Exchanges and on Company website at [www.mewatinc.com](http://www.mewatinc.com).  
 2 The above results were reviewed by the Audit committee, and thereafter approved by the Board of Directors in their meetings held on 23rd May, 2022.  
 3 The Statutory Auditor of the Company have carried out audit of Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2022 pursuant to Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.  
 4 Previous year/Quarter figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary.  
**For Mewat Zinc Limited**  
**Sd/-**  
**J P Gupta** (Managing Director)  
 DIN: 00255329  
 Date: 23rd May, 2022  
 Place: New Delhi

**REGENCY FINCORP LIMITED**  
 CIN: L67120PB1993PLC031369  
 Unit

